

भाषा की बात-

प्रश्न 1.

निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए डर से अधमरा होना, छाती ठोंककर आगे बढ़ना, रास्ता साफ होना, रंग चढ़ना, . दिल को बाँध देना।

उत्तर-

डर से अधमरा होना - (अधिक डर जाना) साँप को सामने देखकर सीमा डर के मारे अधमरी हो गई।

छाती ठोंककर आगे बढ़ना - (हिम्मत दिखाना) आतंकवादी को भागता देखकर सुरक्षाकर्मी छाती ठोंककर आगे बढ़ा।

रास्ता साफ होना - (रुकावट न होना।) रास्ता साफ हो जाने पर रेलगाड़ियाँ लम्बा चक्कर छोड़कर अपने नियत पथ पर चलने लगीं। |

रंग चढ़ना - (असर होना।) वीर पुरुष को देखकर वीरता का रंग चढ़ना स्वाभाविक है।

दिल को बाँध देना - (दिल काबू कर लेना।) गांधी जी ने अपने सर्व धर्म समभाव से लोगों के दिलों को बाँध लिया था।

प्रश्न 2.

आजाद, गुलाम, बादशाह, कैदी, फौज, दरिया और कुदरत उर्दू के शब्द हैं। हिन्दी में इनके समानार्थी शब्द लिखिए।

उत्तर-

स्वतन्त्र, सेवक, राजा, बन्दी, सेना, नदी और प्रकृति।

प्रश्न 3.

‘सत्त्व’ शब्द में ‘त्व’ प्रत्यय जुड़कर सत् + त्व = सत्त्व बन गया है। नीचे लिखे शब्दों में ‘त्व’ जोड़कर नए शब्द बनाइए।

उत्तर- महत् - महत्त्व, प्रभु - प्रभुत्व, तत् - तत्त्व, वीर - वीरत्व।

प्रश्न 4.

विलोम या निषेध के अर्थ में कुछ शब्दों के पूर्व ‘अ’ या ‘अन्’ जुड़ जाता है, जैसे- ‘सम्भव’ से ‘असम्भव’ और ‘आवश्यक’ से ‘अनावश्यक’ शब्द बनता है। ‘अन्’ का प्रयोग उस समय होता है, जब शब्द के आरम्भ में कोई स्वर हो। अ, अन् की सहायता से नीचे लिखे शब्दों का विलोम शब्द बनाइए- उपस्थित, स्थायी, साधारण, समान, उदार।

उत्तर-

उपस्थित - अनुपस्थित **स्थायी** - अस्थायी **साधारण** - असाधारण

समान - असमान **उदार** - अनुदार

प्रश्न 5.

आल्प्स’ शब्द आ + ल् + प् + सु + अ से बना है। इसमें लु, पू, स् कम से तीन व्यंजन आए हैं, इन्हें व्यंजनगुच्छ कहा जाता है। पाठ से इस प्रकार के व्यंजनगुच्छ वाले शब्द चुनकर लिखिए।

उत्तर-

ब्रह्मास्मि, अभिव्यक्ति, आध्यात्मिक।